

# भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1976/वी० 15, 1897

No. 5]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1976/PAUSA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICE

#### IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th January 1976

SUBJECT :- Import Policy for the year April, 1975—March, 1976.

No. 1-NITC(P) 76.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1975—March, 1976.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1975—March, 1976 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
61	Section II, S. No. 303/IV, columns (1) 2 and 4.	In column 2, the existing description may be deemed to have been substituted by the following :— "Photographic negatives and printing p.p.r., including dia-positive plates (not exposed), but excluding X-Ray films."

1

2

3

- (2) In "column 4, the following new remark may be deemed to have been inserted :—  
 "(4) Import of dia-positive plates will not be permitted."
- 85 Section III, S. No. 22,31/V, item No. (26)—Phenol/Carbolic acid excluding substituted phenols. This item may be asterisked and the following note for this item may be deemed to have been incorporated at the bottom of this page :—  
 "For meeting the requirements of actual users under the policy for registered exporters."
- 97 Section IV, S. No. 303/IV, columns 2 and 4. (1) In column 2, the existing description may be deemed to have been substituted by the following :—  
 "Photographic negatives and printing paper, including dia-positive plates (not exposed), but excluding X-Ray films."  
 (2) In column 4, the following new remark may be deemed to have been inserted :—  
 "(v) Import of dia-positive plates will not be permitted."
- 201 Section V, Appendix 24, Part 'B' Below paragraph 2, the following new paragraph may be deemed to have been inserted :—  
 "2-A. Import of fluorescent pigments and colours will be allowed to actual users, on a restricted basis."
- 203 Section V, List III of Annexure to Appendix 24, item No. (32)—Dimethylaniline excluding 2 : 6 Xylidine and 2 : 4 Xylidine (Meta Xylidine). The description of this item may be deemed to have been amended to read as under :—  
 "N:N. Dimethylaniline."
- 211 Section V, Appendix 28, List I, item No. (36)—Phenol/Carbolic acid excluding substituted phenols. This item may be deemed to have been deleted.
- 212 Section V, Appendix 28, List II. Below the item No. 24—Butyl alcohol, the following item may be deemed to have been inserted as item No. 24-A :—  
 "24-A. Butylated hydroxy anisole."
- 215 Section V, Appendix 28, List III. Below the item No. 166—'Perchloro ethylene', the following item may be deemed to have been included as S. No. 166-A :—  
 "166-A. Phenol/Carbolic acid excluding substituted phenols."
- 220 Section V, Appendix 29, List I, item No. 14—Fluorescent pigments and colours. The following entry may be deemed to have been inserted against this item :—  
 "Import will be allowed on a restricted basis."
- 245 Section V, Appendix 35, List 'A'. The following 'N.B.' appearing under the headings "(5) Cement Machinery" and "(8) Sugar Machinery" may be deemed to have been deleted :—  
 "N.B.—A.U. applications for import of spare parts not manufactured indigenously will be considered in consultation with D.G.T.D."

{ 2

3

- 361 Section V, Appendix 74, S.No. 1-B/III (Appendix 24) Just above the heading "Dyes—intermediates, the following :—", the under-mentioned entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—
- |  | 2                                | 3   |
|--|----------------------------------|-----|
|  | Fluorescent pigments and colours | 50% |
- 362 Section V, Appendix 74, S.No. 1-B/III (Appendix 24), column 2, item No. 35. for the existing description "Dimethylaniline 2 : 6 Xylidine and 2 : 4 Xylidine (Meta Xylidine)".  
Read "N : N Dimethylaniline"
- 363 Section V, Appendix 74, S.No. 22-31/V (Appendix 28), item No. 17-Phenol/Carbolic Acid. This item and the entry relating thereto appearing in column 3 may be deemed to have been deleted.
- 364 Section V, Appendix 74, S.No. 22-31/V (Appendix 28) Below the item No. 50 "Butyl Titanate" the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—
- |  | 2                              | 3   |
|--|--------------------------------|-----|
|  | 50-A. Butylated hydroxyanisole | 50% |
- 367 Section V, Appendix 74, S.No. 34—37 (d)/V (Appendix 29)—Raw materials for paints. Below the item No. (e), the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—
- |  | 2                                    | 3   |
|--|--------------------------------------|-----|
|  | (f) Fluorescent pigments and colours | 50% |

D. D. JOSHI,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय


सार्वजनिक सूचना]

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1976

विषय.—अप्रैल, 1975—मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 1-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक—वा० 1) में यथा विहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।



2. अप्रैल, 1975-मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (रैडबुक वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

रैडबुक (वा०

1) की पृष्ठ सं०

संदर्भ

संशोधनों के ध्यौरे

1	2	3
61	खंड-2, क्रम सं० 303/4 कालम 2 एवं 4	(1) कालम 2 में वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— “डाय-पोजिटिव प्लेट्स सहित (जो एक्सपोज्ड नहीं है) किन्तु एक्सरे फिल्मस को छोड़कर फोटोग्राफिक नैगेटिव एवं मुद्रण कागज” (2) कालम 4 में निम्नलिखित नई टिप्पणी को जोड़ा गया समझा जाए:— “(4) डाय-पोजिटिव, प्लेट्स के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।”
85	खंड 3, क्रम सं० 22, 31 / 5 मद सं० (26)—प्रति स्थापित किए गए फिलो को छोड़कर फिलो/ कार्बालिक एलिट	इस मद पर तारक चिन्ह अंकित किया जाए और इस मद के लिए पृष्ठ के ब्रिजकुल नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को शामिल किया गया समझा जाए:— “पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।”
97	खंड 4, क्रम सं० 303/4, कालम 2 तथा 4	(1) कालम 2 में वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— “डाय-पोजिटिव प्लेट्स (जो एक्सपोज्ड नहीं है) किन्तु एक्सरे फिल्मस को छोड़कर फोटोग्राफिक नैगेटिव और मुद्रण कागज”। (2) कालम 4 में निम्नलिखित नई टिप्पणी को जोड़ा गया समझा जाए:— “(5) डाय-पोजिटिव के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।”
201	खंड 5, परिशिष्ट 24, भाग “बी”	कंडिका 2 के नीचे निम्नलिखित नई कंडिका को जोड़ा गया समझा जाए:— “2-ए वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रदीप्त रंजक और रंगों के आयात की स्वीकृति प्रतिबंधित आधार पर दी जाएगी।”

1	2	3
203	खंड 5, परिशिष्ट 24 के लिए अनुबंध की सूची 3 में मद सं० (32) 2:6 जाइलिडिन एवं 2:4 जाइलिडिन (मेटा जाइलिडिन) को छोड़कर डाइमैथिलैनिलाइन.	इस मद के विवरण को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए:— “एः एः डाइमैथिलैनिलाइन”
211	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 1, मद सं० (36) प्रतिस्थापित किए गए फिनोल को छोड़कर फिनोल/कार्बोलिक एसिड ।	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।
212	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची -2	मद सं० 24 ब्यूटिल अल्कोहल के नीचे निम्नलिखित मद को 24-ए के रूप में जोड़ा गया समझा जाए :— “24-ए ब्यूटिलैटिड हाइड्राक्सी, एनिसोल ।”
215	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची-3	मद सं 166—पारक्लोरोयिलीन” के नीचे निम्नलिखित मद को क्रम संख्या : 166-ए के रूप में शामिल किया गया समझा जाए:— “166-ए प्रतिस्थापित किए गए फिनोल को छोड़ कर फिनोल/कार्बोलिक एसिड ।”
220	खंड 5, परिशिष्ट 29, सूची 1, मद सं० 14 प्रदीप्त रंजक और रंग	निम्नलिखित प्रविष्टि को इस मद के सामने निविष्ट किया गया समझा जाए :— “प्रतिबंधित आधार पर आयात की स्वीकृति दी जाएगी ।”
245	खंड 5, परिशिष्ट 35, सूची “ए”	“(5) सिमेंट मशीनरी” एवं (8) “चीनी मशीनरी” शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई गई निम्नलिखित “टिप्पणी” को हटाया गया समझा जाए :— “टिप्पणी—उन फालतू पुर्जों के आयात के लिए वास्तविक उपयोगता आवेदन पत्रों पर जो देशों विनिर्मित नहीं हैं महा-निदेशक तकनीकी विकास के साथ परामर्श करके विचार किया जाएगा ।”
361	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 1 बी/3 (परिशिष्ट 24)	“निम्नलिखित मध्यस्थ रंग” शीर्षक के ठीक ऊपर निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बद्ध कालम के अन्तर्गत जोड़ा गया समझा जाए:—

1	2	3
362	खंड 5, परिशिष्ट 74 क्रम सं० 1-बी/3 (परिशिष्ट 24) कालम 2, मद सं० 35	वर्तमान विवरण डाइमैथिलैनिलाइन 2:6 जाइलिडिन एवं 2:4 जाइलिडिन (मेटा) जाइलिडिन के लिए “एनः एन डाइमैथिलैनिलाइन” पढ़ें ।
363	खंड 5, परिशिष्ट 74 क्रम सं० 22, 31/5 (परि- शिष्ट 28) मद, सं० 17, फिनोल/कार्बी- लिक एसिड	कालम 3 में इस मद को और इस से सम्बद्ध प्रविष्टि को हटाया गया समझा जाए ।
364	खंड 5 परिशिष्ट 74, क्रम सं० 22, 31/5 (परि- शिष्ट 28)	मद सं 50 “ब्यूटिल टिटानेट” के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बद्ध कालम के अन्तर्गत निविष्ट किया गया समझा जाए ।
	2	3
	50 ए ब्यूटिलैटिड हाइड्रासी एनिसोल,	50 प्रतिशत
367	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 34-37 (डी)/5 (परिशिष्ट 29) पेन्टुस के लिए कच्चे माल	मद सं० (इ) के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बद्ध कालम के अन्तर्गत निविष्ट किया गया समझा जाए —
	2	3
	(एक) प्रदीप्त रंजक एवं रंग	50 प्रतिशत

डी० डी० जोशी,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।